

MUNJAL SHOWA LIMITED

Registered Office & Works : 9-11, Maruti Industrial Area, Sector - 18, Gurugram - 122 015 (Haryana) INDIA
E-mail : msladmin@munjalshowa.net Website : www.munjalshowa.net
Corporate Identity Number : L34101HR1985PLC020934, PAN : AAACM0070D
Phone : 0124-4783000 Fax : 0124-2341359

October 28, 2020

The D.G.M. (Listing)
Corporate Relation Department
BSE Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai-400 001
Security Code: 520043

The Asst. Vice President
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai – 400 051
Security Code: MUNJALSHOW

Sub: Submission of Newspaper Advertisement for Intimation of Board Meeting under Regulation 47(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015

Dear Sir(s),

Pursuant to Regulation 47 and other applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, please find enclosed herewith the copy of Newspaper advertisement published in newspapers viz. 'Mint' in English language on October 28, 2020 and 'Hindustan' in Hindi language on October 28, 2020 informing about the Notice of Board Meeting to be held on Thursday, November 05, 2020.

Kindly take the aforesaid information on your records.

Thanking you,

Yours sincerely,
For MUNJAL SHOWA LIMITED


(Geetanjali Sharma)
Company Secretary & Compliance Officer




Encl: as above


S&P BSE Sensex	Nifty 50	Nifty 500	Nifty Next 50	Nifty 100	S&P BSE Mid-cap	S&P BSE Small Cap
CLOSE 40,522.10	CLOSE 11,889.40	CLOSE 9,748.30	CLOSE 27,462.15	CLOSE 11,971.90	CLOSE 14,953.72	CLOSE 15,090.43
PERCENT CHANGE 0.94	PERCENT CHANGE 1.03	PERCENT CHANGE 1.04	PERCENT CHANGE 1.48	PERCENT CHANGE 1.09	PERCENT CHANGE 1.65	PERCENT CHANGE 0.60
PREVIOUS CLOSE 40,145.50	PREVIOUS CLOSE 11,767.75	PREVIOUS CLOSE 9,647.65	PREVIOUS CLOSE 27,062.40	PREVIOUS CLOSE 11,842.70	PREVIOUS CLOSE 14,710.65	PREVIOUS CLOSE 15,000.71
OPEN 40,199.08	OPEN 11,807.10	OPEN 9,674.15	OPEN 27,117.60	OPEN 11,880.30	OPEN 14,735.20	OPEN 14,980.60
HIGH 40,555.60	HIGH 11,899.05	HIGH 9,756.05	HIGH 27,508.20	HIGH 11,981.70	HIGH 14,969.29	HIGH 15,099.25
LOW 39,978.39	LOW 11,723.00	LOW 9,607.60	LOW 26,956.85	LOW 11,800.20	LOW 14,619.12	LOW 14,893.29

MINT SHORTS

VIX hits 7-week high amid rising post-poll calm bets
The Choe Volatility Index climbed to its highest since early September on Monday, but traders continued to pile into bets on its eventual demise. A sell-off in US stocks amid the stimulus stalemate and resurgent coronavirus helped push the VIX up almost 5 points to 32.5—a level not seen since 8 September. But the 10-day moving average of total put volume relative to total call volume for the gauge—a measure of demand for short volatility bets—extended its recent rise to the highest in 14 years, according to Bloomberg data. **BLOOMBERG**



BP narrowly avoids loss in Q3, but challenges remain
BP Plc narrowly avoided a third-quarter loss, but warned there are many challenges ahead as the pace of recovery in oil demand remains uncertain. The company defied analyst expectations to eke out a small profit as a rebound in earnings from fuel marketing offset “extremely weak” refining margins. Yet, the positive surprise may do little to change the gloomy outlook for Big Oil amid the pandemic. While crude prices have recovered from historic lows seen in April, BP’s profit was down 96% from a year earlier as lockdowns in Europe and the US kept fuel demand at bay. The company warned of a “volatile and challenging trading environment” ahead. **BLOOMBERG**



Oil edges up on weak dollar with bearish headwinds
Oil clawed back some losses in New York as the dollar weakened, although rising Libyan production and fading hopes for fresh US stimulus pointed to a bearish outlook for the market. Futures rose 0.8% after tumbling below \$39 a barrel on Monday, with a weaker dollar boosting the appeal of commodities priced in the currency. Libya is set to restart the last of its major oil fields following a ceasefire in its civil war, moving the nation a step closer to boosting output to 1 million barrels a day. **BLOOMBERG**

For more reports and analysis on the markets, follow our Mark to Market podcast with Pallavi Pengonda and Aparna Iyer on [htsmartcast.com](#)



mint Think Ahead. Think Growth.

Follow us:

mint.live livemint live_mint

livemint www.livemint.com

Bharti Airtel's strong results hold a mirror up to pessimistic investors

Mobis Philipose
mobis.p@livemint.com

The Bharti Airtel Ltd stock has been a bit of a conundrum lately. Although the company is expected to be a key beneficiary of Vodafone Idea Ltd's problems, the stock recently flirted with its post-covid lows seen in March. While it has recovered a bit to ₹430 levels, it has still underperformed the market by about 30% in the past three months. The company's September quarter results will certainly challenge the pessimistic sentiment around the stock. Bharti Airtel's performance in nearly all its operating segments was far ahead of expectations. In the key India mobile business, revenue grew 7.4% sequentially to ₹13,832 crore. Its customer base jumped 5% sequentially after being flat for several quarters. Growth was

driven by high-value 4G customers, which rose 10.4% quarter-on-quarter. With a majority of subscribers consuming data, average revenue per user (Arpu) rose to ₹162, up 3.3% from the June quarter. Most of the incremental revenue flowed over to the profit line, and Ebitda margins of the mobile division rose by over 500 basis points sequentially. Ebitda stands for earn-

subscriber base suggests high market share gains from Vodafone Idea," said an analyst from a domestic institutional brokerage. The segment also reported earnings before interest and tax of ₹2,440 crore, which signifies that it has returned to profits at the pre-tax level after a long gap. While the firm doesn't break-out its interest costs across divisions, it is estimated that finance costs of its India mobile business were at ₹1,100-1,200 crore. Other highlights included 5% sequential growth in home broadband customers, and 5-6% sequential increase in Ebitda of the digital TV and enterprise divisions. Airtel Africa had reported a huge 16% sequential jump in profit in constant currency terms. While Airtel shares haven't really budged since it reported impressive results for its Africa business, investors now need to grapple with the fact that the company has delivered strong


STELLAR SHOW

BHARTI Airtel's performance in nearly all operating segments was ahead of expectations. **WITH** a majority of Airtel's subscribers consuming data, its Arpu rose to ₹162, up 3.3% from Jun quarter. **INVESTORS** seem to be perturbed about Reliance Jio's increasing dominance in India's telco market.

Tata Motors outpaces Street as JLR rides to profitability

Clifford Alvares
clifford.a@livemint.com

Tata Motors Ltd's (TML) Q2 results have been quite a few wheel-lengths ahead of the Street, following the acceleration in Jaguar Land Rover (JLR) after the coronavirus lockdown. TML's domestic business is also stepping on the gas with revenues recovering sequentially. While JLR's retail volumes have slipped about 12% year-on-year (y-o-y), the 53% sequential pick-up has been remarkable. The improvement in China coupled with Europe and the US also picking up despite the second wave of coronavirus cases is impressive. JLR's global retail network has also reopened. Analysts have pointed out that overall discount levels have come down, aiding revenues. JLR's Q2 revenues shot up 52% sequentially, although y-o-y, they were lower 28%. Still, lower costs and the operational performance are quite encouraging. JLR's profit before tax turned a corner after two quarters of heavy losses. The company saved about €600 million in costs in the quarter, and about €1.8 billion in the year so far. Domestically, both TML's commercial and passenger vehicle businesses are recover-



ing well after the lockdown. Note that retail sales of commercial vehicles have jumped to 38,300 units in Q2 after plummeting to 3,100 units in Q1. However, while cargo demand is improving, demand from the bus segment continues to be lacklustre. Passenger vehicle sales have been improving due to a pickup in retail sales amid growing preference for personal mobility. In fact, TML's passenger vehicle sales were up 73% y-o-y. The management noted that retail sales have done well due to mounting demand. Overall, TML's consolidated revenue and operating profit improvement have come ahead of the Street's expectations. Ebitda margins stood at 10.5% in Q2 on lower costs compared

to 2.6% in Q1. Net losses too narrowed q-o-q against expectations of higher losses. Ebitda is earnings before interest, tax, depreciation and amortization. "Despite a decline of more than 30% in JLR volumes, the company recorded healthy margins. This resulted in significant narrow down in consolidated losses. It is a stellar performance despite a challenging environment," said Mitul Shah, head of research, Reliance Securities. While analysts are likely to upgrade their earnings expectations for the year after the good show, the TML stock seems to be reflecting the improved performance. The stock did well post covid-19 and is just about 32% lower than its pre-covid highs from its fall of about 67% in March. The stock is trading at a one-year forward price-earnings multiple of about 27 times as per Bloomberg.

SBI Life delivers on growth, while ICICI PruLife wins in profitability


Aparna Iyer
aparna.i@livemint.com

When it comes to growth, India's largest private sector life insurer hasn't disappointed. Notwithstanding its size, SBI Life Insurance Co. Ltd reported a new business premium growth of 27% for the September quarter. In comparison, ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd which released its September quarter results on Tuesday reported tepid growth metrics. New business premium growth was hardly more than 1% for the life insurer. To be sure, investors had anticipated a lacklustre growth from the life insurer. However, the insurer did marginally better on profitability metrics compared with peer SBI Life. ICICI Prudential Life's new business margin surged to 27.4% from 24.4% in Q1. What has worked for SBI Life is that much of the new growth has come from retail and protection products. The contraction in business in terms of annualized pre-

mium equivalent (APE) narrowed to -4% for the September quarter from -32% in the June quarter, indicating swift recovery. Jefferies India Pvt. Ltd analysts said growth is normalizing fast for the life insurer. Within the retail portfolio, the traction in protection products was strong. Protection APE grew by 13% and the share of protection in overall portfolio remained at 7%. For ICICI Prudential Life, too, the protection business grew faster than other products. Growth in market-linked products dragged both insurers. A pandemic is making Indians buy more insurance as health and life protection come to the fore. SBI Life's term plans are flying off the shelves faster than peers. Analysts believe that this augurs well for growth outlook and justify current valuations. "We believe that SBI Life's growth runway through cli-

ent-mining into SBI's client base will support valuations of 2.4 times FY22 price to embedded value," said Jefferies in a note. That said, SBI Life fumbles a bit on the profitability metrics. Granted, fast growth guarantees better profits in years ahead as costs of insurance products are upfront while returns staggered. Even so, SBI Life's value of new business growth was muted for the September quarter. That for ICICI Prudential Life too reported a flat value of new business growth. This compares with HDFC Life Insurance Co's 23% growth in value of new business. Further, analysts noted that despite a surging growth in protection business for SBI Life, margins didn't reflect it. New business margin was 18.9%, in line with previous quarters. Lower premium rates may have dragged down margins, according to analysts. Nevertheless, the outlook for profitability is sanguine for both SBI Life and ICICI Prudential Life. Persistence ratios have improved for longer time frames. That along with traction in margin-friendly protection business should ensure profitability improves going ahead. "We estimate the value of new business margin to reach 21% by FY23 and thus deliver a 17% VNB CAGR over FY20-23," analysts at Motilal Oswal Financial Services wrote on SBI Life. Shares of both SBI Life and ICICI Prudential Life have trailed peer HDFC Life so far this year because of the latter's superior profitability metrics.

Recovery without a bang



MUNJAL SHOWA LIMITED

CIN: L34101HR1985PLC020934
Registered Office & Works: 9-11, Maruti Industrial Area, Sector-18, Gurugram - 122015, (Haryana); Tel.: +91-124-4783000
Email: pgupta@munjalshowa.net; Website: www.munjalshowa.net

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to the provisions of Regulation 29 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of Board of Directors of the Company will be held on **Thursday, November 05, 2020**, inter-alia to consider and adopt the unaudited financial results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2020.

The Notice is also available on the Website of the Company www.munjalshowa.net and that of BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

By order of the Board
For **Munjali Showa Limited**
Sd/-
(**Geetanjali Sharma**)
Company Secretary

Place : Gurugram
Date : 27.10.2020

ABFRL sees tailwinds post stake sale

Pallavi Pengonda
pallavi.p@livemint.com

Shares of Aditya Birla Fashion and Retail Ltd (ABFRL) have risen by 7.6% since the Flipkart deal announcement on Friday. Flipkart will invest ₹1,500 crore in ABFRL for a 7.8% stake in it. This is a relief for ABFRL, which has high leverage, a key overhang for the stock. Further, the covid-19 pandemic has wreaked havoc on demand. "Funds infusion from the Flipkart deal and rights issue (₹750 crore of ₹1,000 crore), as well as inventory unwinding in FY2021, will help bring

down ABFRL's net debt to a more manageable level of ₹510 crore by March 2021," said Kotak Institutional Equities. At the end of June, ABFRL's net debt stood at ₹3,250 crore. The partnership with Flipkart should also benefit the company in boosting its e-commerce sales for both Madura and Pantaloon. "We believe ABFRL will be able to accelerate its e-commerce sales by getting more prominently featured at Flipkart's online marketplaces that are leaders

in online fashion," said Kotak. Even so, revival in sales remains paramount. ABFRL's standalone revenue fell by 85% year-on-year in the June quarter. The company is relatively more vulnerable as apparel demand is discretionary in this environment. However, visibility has improved with most shopping malls resuming operations, though the formal wear category, where ABFRL has a high presence, may take longer to revive.

Flipkart is set to invest ₹1,500 cr in ABFRL for a 7.8% stake, which is a relief for the latter's debt outlook

खाते में जमा और निकासी पर अलग से फीस लेंगे बैंक

झटका
कानपुर | प्रमुख संवाददाता

बैंकों में अब अपना पैसा जमा करने और निकालने के लिए भी फीस देना पड़ेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। अगले महीने से तय सीमा से ज्यादा बैंकिंग करने पर अलग से शुल्क लगेगा। इस पर बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, एक्सिस और सेंट्रल बैंक भी जल्द फैसला लेंगे।

बैंक ऑफ बड़ौदा ने चालू खाते, क्रेडिट लिमिटेड और ओवरड्राफ्ट खाते से जमा-निकासी के अलग-अलग शुल्क निर्धारित किए हैं। लोन खाते के लिए महीने में तीन बार के बाद



इस तरह जेब होगी ढीली

सीसी, चालू और ओवरड्राफ्ट खातों के लिए इस तरह चार्ज देना होगा

- एक दिन में एक लाख तक जमा : निशुल्क
- एक लाख से ज्यादा होने पर : एक हजार रुपये पर एक रुपए चार्ज (न्यूनतम 50 रुपये और अधिकतम 20 हजार रुपये)
- एक महीने में तीन बार पैसा निकालने पर : कोई शुल्क नहीं
- चौथी बार से : 150 रुपये प्रत्येक विड्रॉल पर देना होगा

बचत खाता ग्राहकों के लिए

- तीन बार तक जमा : निशुल्क
- चौथी बार से देना होगा : 40 रुपये हर बार
- महीने में तीन बार खाते से पैसा निकालने पर : कोई शुल्क नहीं
- चौथी बार से पैसा निकालने पर देना होगा : 100 रुपये हर बार
- वरिष्ठ नागरिकों को कोई छूट नहीं मिलेगी।
- जनेशन खातों में जमा निशुल्क लेकिन निकासी पर 100 रुपये लगेगे

कई जरूरी सेवाएं बढ़ा दी जाएं शुल्क

लेजर फोलियो चार्ज 200 रुपये प्रति पेज (किन्हीं भी तरह के लोन पर सीसी या ओडी पर वसूला जाता है।)

चेकबुक चार्ज 3 रुपये से 5 रुपये प्रति लीफ (दूसरी चेकबुक पर)

किसी भी कारण से चेक वापसी हो गई तो चार्ज छोटे लोन पर अधिकतम ₹ 225 हजार तक

कोरोना संकट से अर्थव्यवस्था को उबारने और रोजगार के अवसर बढ़ाने की योजना


तैयारी: दिवाली से पहले तीसरा राहत पैकेज संभव

नई दिल्ली | हिन्दुस्तान ब्यूरो

कोरोना संकट से भारतीय अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए सरकार दिवाली से तीसरे राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है। तीसरे राहत पैकेज से रोजगार बढ़ाने और कोविड-19 के चलते सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों को राहत पहुंचाने की तैयारी है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है।

सूत्रों के अनुसार, सरकार इस पैकेज के तहत शहरी परिव्ययानों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बढ़ावा दे सकती है। वहीं, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम में और काईसेक्टर को शामिल करने की योजना है। मोबाइल मैनुफैक्चरिंग में पीएलआई स्कीम का बहुत ही बढ़िया रिस्पांस रहा है।

काई विदेशी मोबाइल कंपनियों ने भारत में बड़े निवेश के लिए सरकार के साथ करार किया है। इससे आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होंगे। इसके अलावा आतिथ्य और पर्यटन के लिए सीधे मदद दी जा सकती है। इस राहत पैकेज के जरिये नई नौकरियां बढ़ाने की योजना है।



छोटे से बड़े शहर शामिल होंगे: तीसरे पैकेज में सरकार का जोर टीयर-1 से लेकर टीयर-4 (छोटे से बड़े शहर) तक की परियोजनाओं पर होगा। इन परियोजनाओं में निवेश बढ़ाकर रोजगार के नए मौके पैदा किए जा सकते हैं। सरकार ने इस बार प्रोत्साहन पैकेज के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन से 20-25 परियोजनाओं को चुना है।

शहरी मनरेगा अभी नहीं: हालांकि, सरकार ने अब शहरी रोजगार योजना के प्रस्ताव में निवेश को टाल दिया है। इस मामले में नीति निर्धारकों का कहना था कि शहरी परियोजनाओं में जुड़ी केंद्र और राज्य सरकारों की कंपनियों में निवेश से भी रोजगार के मौके बढ़ेंगे। लिहाजा अलग से योजना में पैसा लगाने की जरूरत नहीं है।

वृद्धि दर शून्य के करीब होगी: वित्त मंत्री

नई दिल्ली | एजेंसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि अर्थव्यवस्था में अब सुधार के संकेत दिखने लगे हैं। हालांकि, इसके साथ ही उधरे हुए क्रेडिट चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर में गिरावट होगी या फिर शून्य के करीब रहेगी।

उन्होंने कहा कि 2020-21 की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था में 23.9 प्रतिशत की जबरदस्त गिरावट आई है, जिससे पूरे वित्त वर्ष के दौरान जीडीपी की वृद्धि दर नकारात्मक या शून्य के

अनुमान

- सीतारमण ने कहा, अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिखने लगे
- त्योहारी सीजन से अर्थव्यवस्था की ओर रफ्तार मिलने की उम्मीद करीब रहेगी। सेरा बीच के भारत ऊर्जा मंच को संवोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि संवोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों को खोलने के लिए वृद्ध आर्थिक संकेतकों में सुधार दिखाई दे रहा है। सीतारमण ने कहा कि त्योहारी सीजन से अर्थव्यवस्था की ओर रफ्तार मिलने की उम्मीद है।

से ही हम महामारी से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों को खोलने के लिए वृद्ध आर्थिक संकेतकों में सुधार दिखाई दे रहा है। सीतारमण ने कहा कि त्योहारी सीजन से अर्थव्यवस्था की ओर रफ्तार मिलने की उम्मीद है।

ब्याज माफी योजना बैंक जल्द लागू करें

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी कर्जादाता संस्थानों से मंगलवार को कहा कि वे दो करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिए हाल ही में घोषित ब्याज माफी योजना को लागू करें। इस योजना के तहत दो करोड़ तक के कर्ज पर ब्याज के ऊपर लगने वाला ब्याज एक मार्च 2020 से छह महीने के लिए माफ किया जाएगा। सभी बैंकों को पांच नवंबर तक चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर को खाते में जमा करने के लिए कहा गया है।

मुंजाल शोवा लिमिटेड

सीआईएन: L34101HR1985PLC020934

पंजीकृत कार्यालय एवं बस: 9-11, मारुति इंडस्ट्रियल एरिया, सैक्टर 18, गुरुग्राम-122015 (हरियाणा); फोन: +91-124-4783000

ई-मेल: pgupta@munjalshowa.net; वेबसाइट: www.munjalshowa.net

सूचना

भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सुचियन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमावली, 2015 की नियमावली 29 एवं 47 के अनुपालन में एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक **बुधवार 28 अक्टूबर, 05 नवंबर, 2020** को आयोजित की जाएगी जिसमें अर्ध व्षिक वित्तीय वर्ष के अतिरिक्त, कम्पनी के 30 अक्टूबर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं अर्ध व्षिक के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष पर विचार एवं उन्हें अनुमोदित किया जायेगा।

सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.munjalshowa.net एवं बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड (www.nseindia.com) की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

मंडल के आदेश से मुंजाल शोवा लिमिटेड हेतु हस्ता. /- (गौतांजलि शर्मा) कम्पनी सचिव

भारतीय रिजर्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

भारतीय रिजर्व बैंक के जन जागरूकता अभियानों के परिणाम/प्रभाव आकलन के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)

संवार विभाग (डीओसी), भारतीय रिजर्व बैंक (रिजर्व बैंक), 9वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शाहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400001, रिजर्व बैंक के जन जागरूकता अभियानों के परिणाम / प्रभाव आकलन के लिए पात्र प्रतिष्ठित संस्थाओं से 'रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)' आमंत्रित करता है।

ईओआई प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि गुरुवार, 19 नवंबर 2020 को दोपहर 12.00 बजे तक है। जानकारी के लिए कृपया रिजर्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) का 'निविदाएं' खंड देखें।

मुख्य महाप्रबंधक
संवार विभाग, केंद्रीय कार्यालय
नोट: उपरोक्त निविदा / ईओआई के संबंध में किसी भी अतिरिक्त परिशिष्ट / शुद्धिपत्र / तारीखों को बढ़ाने, बोली लगाने वाली के प्रश्नों का स्पष्टीकरण / उत्तरों को केवल बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर रखा जाएगा तथा प्रेस में अलग से कोई अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी।

"पैसे का वादा करने वाले ई-मेल/ एसएमएस/ टेलीफोन द्वारा धोखा न खाएं"

सेंसेक्स में 377 अंकों का उछाल

मुंबई: बीएसई सेंसेक्स मंगलवार को 377 अंक मजबूत हुआ। कोटक महिंद्रा बैंक के बेहतर तिमाही परिणाम के बाद उसके शेयर में जोरदार लिवाली का बाजार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 376.60 अंक की बढ़त के साथ 40,522.10 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 121.65 अंक या 1.03 प्रतिशत मजबूत होकर 11,889.40 अंक पर पहुंच गया।

राज्य गंगा देगे मजबूती का लाभ

मुंबई: कोविड-19 महामारी का मुकाबला करते हुए राज्यों में हुए अतिरिक्त खर्च के कारण पिछले तीन साल के दौरान राज्यों की राजकोषीय स्थिति में जो सुधार की स्थिति बन रही थी उसका लाभ अब जाता रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक की वित्त बहरी की शर्तों में यह बात कही गई। रिजर्व बैंक को राज्यों के 2020-21 के बजट के अध्ययन पर आधारित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा बढ़ेगा।

प्रधानमंत्री से पर्यटन उद्योग ने राहत मांगी

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

कोरोना के चलते मुश्किल दौर से गुजर रहे पर्यटन उद्योग ने केंद्र सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग की है। इस मांग को लेकर फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेन्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में पर्यटन और रेस्टोरेन्ट उद्योग के लिए कई राहत देने की मांग की गई है। फेडरेशन के उपाध्यक्ष गुरुबक्शी सिंह कोहली ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए

कर्ज पर ब्याज छूट मिले

प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में फेडरेशन ने आर्थिक पैकेज की मांग की है। इसमें बैंक से लिए कर्ज पर ब्याज में छूट के साथ उद्योग से जुड़े होटल और रेस्टोरेन्ट इस महामारी की वजह से कर्ज नहीं दे पाए, इससे उनके क्रेडिट रेट्स पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। फेडरेशन ने पांच प्रमुख मांग रखी है। फेडरेशन का कहना है होटल और रेस्टोरेन्ट उद्योग सबसे ज्यादा रोजगार अवसर पैदा करता है।

GLEN presents

हिन्दुस्तान **अनोखी digi क्लब**

powered by **Goldiee MASALE**

मुख्य आकर्षण: आहार विशेषज्ञ सेशन

In association with **SENCO GOLD & DIAMONDS** and **Chuvvi Lal MEGA MART PVT LTD**

देखिए खैराल कुकिंग सेशन

तस्की का नया नजरिया

एक खास मुलाकात

ध्वनि भानुशाली
गायिका

लाइव सेशन से जुड़िये और 'आयें बाटे त्याहरोँ की खुशियां' विषय पर ध्वनि भानुशाली से खास बातचीत का हिस्सा बनिये।

तारीख: 28 अक्टूबर
समय: शाम 4 से 5 बजे
आयोजन: अनोखी क्लब फेसबुक पेज पर लाइव